

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.2]	नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 12—जनवरी 18, 2019 (पौष 22, 1940)
No. 2]	NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 12—JANUARY 18, 2019 (PAUSA 22, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली—110003, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

सं. डीपीपर्स.1/2018/5054/03/65/2012—श्री मनीष किशोर सिन्हा, भा. पु. सेवा (जेके 1996), संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं प्रत्यावर्तन पर, केन्द्र में उनकी संस्वीकृत सेवा—अवधि के पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप उनके एनडीसी कोर्स के पूर्ण होने की दिनांक अर्थात् 30.11.2018 के अपराहन से जम्मू कश्मीर सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

डी. पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय
(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

सं ओ.दो.—5794/2018—कार्मिक—डीए—3—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 30.07.2018 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री उमेद सिंह पनवार, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला—5794), 96 बटालियन केरिपुबल ने

दिनांक 31.10.2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.10.2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
महानिरीक्षक

सं ओ.दो.-5514/2018-कार्मिक-डीए-3—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 10.08.2018 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री देवेन्द्र कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-5514), 180 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 30.11.2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30.11.2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
महानिरीक्षक

सं ओ.दो.-5601/2018-कार्मिक-डीए-3—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 17.08.2018 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री कुमुदा चन्द्रा सामल, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-5601), 218 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 30.11.2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30.11.2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
महानिरीक्षक

दिनांक 21 दिसम्बर 2018

सं ओ.दो.-5360/2018-कार्मिक-डीए-3—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 07.09.2018 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री अजय कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-5360), 185 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 06.12.2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 06.12.2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
महानिरीक्षक

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 24 दिसम्बर 2018

सं. ई-33013(1)/तकनीकी त्यागपत्र-7/पीवाई/2018/कार्मिक.1/738—श्री पंकज यादव, सहायक कमांडेण्ट/कार्य, केओसुब इकाई ओएनजीसी अकलेश्वर का सिविल सर्विस परीक्षा-2017 के आधार पर भारतीय रेलवे यातायात सेवा, समूह-क में चयन होने पर, राष्ट्रपति द्वारा उनका के.ओ.सु.बल से तकनीकी त्याग-पत्र दिनांक 04.12.2018 (अपराहन) से सहर्ष स्वीकार किया जाता है।

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 28 दिसम्बर 2018

सं. ई-16015/एटामी/72/2009/कार्मिक-11/2039—भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर, मुम्बई में प्रतिनियुक्ति आधार पर 04 (चार) वर्ष के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, केओसुब के निम्नलिखित अधिकारी द्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख व इकाई से पदभार छोड़ा व भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर, मुम्बई में दिनांक जोकि नीचे दर्शाई गई है से डाइरेक्टर (सिक्वोरिटी और कोआर्डिनेशन) का पदभार ग्रहण कर लिया गया है :—

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमति)	केओसुब इकाई का नाम व पदभार छोड़ने की तिथि	बी.ए.आर.सी. में पदभार ग्रहण	बी.ए.आर.सी. में पदभार ग्रहण करने की तारीख
श्री संजय कुमार उप महानिरीक्षक	19.11.18 (अपराहन) केओसुब डीई-2 मुख्यालय, मुम्बई	डाइरेक्टर (सिक्वोरिटी और कोआर्डिनेशन)	20.11.2018 (पूर्वाहन)

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा
भुवनेश्वर—751001, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

सं. 63 ज्ञापन सं.—प्रशासन—I—भा.ले.वि—गुप'ख' / 1139—प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), ओडिशा ने दिनांक 03.12.2018 के का.आ.ग.सं.—820 में दी गई पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप श्री कीर्ति प्रकाश सेन, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 03.12.2018 (अपराह्न) अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके वरिष्ठों के दावों के पूर्वाग्रह के बिना लेखा अधिकारी (गुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन मैट्रिक्स सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के स्तर—9 (रु. 53,100—1,67,800/—) में पदोन्नत करने की सहर्ष संस्वीकृति प्रदान की है।

यह पदोन्नति अस्थायी आधार पर एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, यदि कोई हो, के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

दिनांक 03.12.2018 के का.आ.ग.सं.—820 में विहित निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनमणि मल्लिक
उप महालेखाकार (प्रशासन)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 20th December 2018

No. DP/Pers.I/2018/5054/03/65/2012—Services of Shri Manish Kishore Sinha, IPS (JK:1996), Joint Director, CBI are placed back at the disposal of Government of Jammu & Kashmir with effect from afternoon of 30.11.2018 i.e. the date of completion of NDC Course, on repatriation, consequent upon completion of his approved tenure at Central.

D.P. SINGH
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)

New Delhi, the 20th December 2018

No. O.II-5794/2018-Pers-DA-3—Consequent on acceptance of his notice dated 30/07/2018 for voluntary retirement from Government service by the competent authority, Shri Umed Singh Panwar, Second-in-Command (IRLA-5794) of 96 Bn, CRPF has relinquished his post on 31/10/2018 (A.N). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 31/10/2018(AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
Inspector General

No. O.II-5514/2018-Pers-DA-3—Consequent on acceptance of his notice dated 10/08/2018 for voluntary retirement from Government service by the competent authority, Shri Devendra Kumar, Second-in-Command (IRLA-5514) of 180 Bn, CRPF has relinquished his post on 30/11/2018 (A.N). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 30/11/2018(AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
Inspector General

No. O.II-5601/2018-Pers-DA-3—Consequent on acceptance of his notice dated 17/08/2018 for voluntary retirement from Government service by the competent authority, Shri Kumuda Chandra Samal, Second-in-Command (IRLA-5601) of 218 Bn, CRPF has relinquished his post on 30/11/2018 (A.N). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 30/11/2018(AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
Inspector General

The 21st December 2018

No. O.II-5360/2018-Pers-DA-3—Consequent on acceptance of his notice dated 07/09/2018 for voluntary retirement from Government service by the competent authority, Shri Ajay Kumar, Second-in-Command (IRLA-5360) of 185 Bn, CRPF has relinquished his post on 06/12/2018 (A.N). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 06/12/2018(AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
Inspector General

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 24th December 2018

No. E-33013(1)/Tech Resig-7/PY/2018/Pers.I/738—Consequent upon selection of Shri Pankaj Yadav, AC/Exe of CISF Unit ONGC Ankleshwar to the Indian Railway Traffic Service, Group-“A” on the basis of Civil Service Examination-2017, the President is pleased to accept his technical resignation from CISF with effect from 04.12.2018 (AN).

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 28th December 2018

No. E-16015/Atomic/72/2009/Pers.II/2039—Consequent upon appointment in respect of under mentioned officer in Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Mumbai, on deputation basis, for a period of four years, he has relinquished the charge from CISF and assumed the charge at Bhabha Atomic Research (BARC), Mumbai as Director (Security & Coordination), BARC, Mumbai with effect from the date as mentioned below :—

Name of the Officer (Shri/Smt.)	Date of relinquish the charge/Unit	Rank in BARC, Mumbai	Date of assumption in BARC, Mumbai
Shri Sanjay Kumar, DIG	19.11.2018 (AN) CISF DAE-II HQrs, Mumbai	Director (Security & Coordination)	20.11.2018 (FN)

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA

Bhubaneswar-751001, the 14th December 2018

No. E.O. No.: 63 No. Admn-I-IAD-Gr. 'B'/1139—Consequent on his acceptance of offer of promotion issued vide this office OOC No. 820 dated 03.12.2018, the Principal Accountant General (A&E) Odisha has been pleased to allow Shri Kirti Praksh Sen, Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officer [Gr. 'B'-Gazetted] in Level-9 (₹ 53,100—1,67,800/-) of Pay Matrix of CCS (revised Pay) Rules 2016, with effect from the date of taking over charge i.e., on 03.12.2018 (AN) without prejudice to the claim of hi seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

Other terms and conditions of OOC. No. 820 dated 03.12.2018 remain unchanged.

DINAMANI MALLICK
Deputy Accountant General (Admn.)